

**Series OSR**

कोड नं. **67/2**  
Code No.

रोल नं. 

--	--	--	--	--	--	--

  
Roll No.

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।  
Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **24** हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **25** प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains **24** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **25** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

**लेखाशास्त्र**

**ACCOUNTANCY**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 80

**सामान्य निर्देश :**

- (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभक्त है – क, ख और ग ।
- (ii) भाग क सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है ।
- (iii) परीक्षार्थियों को शेष भाग ख और ग में से कोई एक भाग हल करना है ।
- (iv) किसी प्रश्न के सभी भागों के उत्तर एक ही स्थान पर लिखिए ।

**General Instructions :**

- (i) This question paper contains three parts A, B and C.
- (ii) Part A is **compulsory** for all candidates.
- (iii) Candidates can attempt only **one** part of the remaining parts B and C.
- (iv) All parts of the questions should be attempted at one place.

**भाग क**

**(साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)**

**PART A**

**(Accounting for Partnership Firms and Companies)**

1. समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों के निर्गमन से क्या अभिप्राय है ? 1  
What is meant by issue of debentures as collateral security ?
2. डी लिमिटेड ने 10 ₹ प्रत्येक के 10,00,000 समता अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन आमन्त्रित किए । 8,55,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए । क्या कम्पनी अंशों के आबंटन की कार्यवाही कर सकती है ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए । 1  
D Ltd. invited applications for issuing 10,00,000 equity shares of ₹ 10 each. The public applied for 8,55,000 shares. Can the company proceed for the allotment of shares ? Give reason in support of your answer.
3. न्यायालय के हस्तक्षेप के आधार पर 'साझेदारी के समापन' तथा 'साझेदारी फर्म के समापन' में अन्तर्भेद कीजिए । 1  
Distinguish between 'Dissolution of partnership' and 'Dissolution of partnership firm' on the basis of Court's intervention.

4. एक्स, वाई तथा ज़ैड साझेदार थे तथा  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{10}$  एवं  $\frac{1}{5}$  के अनुपात में लाभों का बँटवारा कर रहे थे। एक्स फर्म से सेवानिवृत्त हो गया। शेष साझेदारों के अधिलाभ अनुपात की गणना कीजिए।

1

X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio of  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{10}$  and  $\frac{1}{5}$ . X retired from the firm. Calculate the gaining ratio of the remaining partners.

5. 'एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन' का अर्थ दीजिए।

1

Give the meaning of 'Reconstitution of a partnership firm'.

6. एक नए प्रवेशित साझेदार द्वारा प्राप्त अधिकारों का उल्लेख कीजिए।

1

State the rights acquired by a newly admitted partner.

7. अ लिमिटेड ने 10 ₹ प्रत्येक के 100 समता अंशों को जो 20% के प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे, 5 ₹ की अन्तिम माँग राशि जिसमें प्रीमियम भी सम्मिलित है, का भुगतान नहीं का पर हरण कर लिया। बट्टे की उस अधिकतम राशि का उल्लेख कीजिए जिस पर इन अंशों का पुनः निर्गमन किया जा सकता है।

1

A Ltd. forfeited 100 equity shares of ₹ 10 each issued at a premium of 20% for the non-payment of final call of ₹ 5 including premium. State the maximum amount of discount at which these shares can be re-issued.

8. निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

3

- (i) सनराइज़ लिमिटेड ने 100 ₹ प्रत्येक के 500, 9% ऋणपत्रों जिनका निर्गमन 10% के बट्टे पर किया गया था, को 100 ₹ प्रत्येक के समता अंशों में परिवर्तित करके किया। समता अंशों को 25% के प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था।
- (ii) ब्रिटानिया लिमिटेड ने 100 ₹ प्रत्येक के 3,000, 12% ऋणपत्रों जिनका निर्गमन 10 ₹ प्रति ऋणपत्र के बट्टे पर किया गया था, का शोधन इन्हें 100 ₹ प्रत्येक के समता अंशों जो 90 ₹ प्रति अंश प्रदत्त थे, में परिवर्तित करके किया।

Pass necessary journal entries in the following cases :

- (i) Sunrise Ltd. converted 500, 9% debentures of ₹ 100 each issued at a discount of 10% into equity shares of ₹ 100 each issued at a premium of 25%.
- (ii) Britannia Ltd. redeemed 3,000, 12% debentures of ₹ 100 each which were issued at a discount of ₹ 10 per debenture by converting them into equity shares of ₹ 100 each, ₹ 90 paid up.

9. हेमन्त तथा निशान्त एक फर्म में साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभों का बँटवारा कर रहे थे । उनकी पूँजी क्रमशः 1,60,000 ₹ और 1,00,000 ₹ थीं । 1 अप्रैल, 2013 को उन्होंने भावी लाभों में 1/5 भाग के लिए सोमेश को नए साझेदार के रूप में प्रविष्ट किया । सोमेश अपनी पूँजी के रूप में 1,20,000 ₹ लाया । फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए तथा उपर्युक्त लेनदेनों के लिए सोमेश के प्रवेश पर आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

3

Hemant and Nishant were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 : 2. Their capitals were ₹ 1,60,000 and ₹ 1,00,000 respectively. They admitted Somesh on 1<sup>st</sup> April, 2013 as a new partner for 1/5 share in the future profits. Somesh brought ₹ 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transactions on Somesh's admission.

10. टाटा लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 2012 को 100 ₹ प्रत्येक के 5,000, 10% ऋणपत्रों का निर्गमन किया । निर्गमन पर पूर्ण रूप से अभिदान हुआ । निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋणपत्रों पर ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर 30 सितम्बर तथा 31 मार्च को देय होता है तथा स्रोत पर कर की कटौती 10% है ।

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले अर्धवार्षिक ब्याज से सम्बन्धित तथा ऋणपत्रों के ब्याज को लाभ-हानि विवरण में स्थानान्तरित करने की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

3

Tata Ltd. issued 5,000, 10% Debentures of ₹ 100 each on 1<sup>st</sup> April, 2012. The issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest on debentures is payable half-yearly on 30<sup>th</sup> September and 31<sup>st</sup> March and tax deducted at source is 10%.

Pass the necessary journal entries related to the debenture interest for the half-yearly ending on 31<sup>st</sup> March, 2013 and transfer of interest on debentures to Statement of Profit and Loss.

11. गोपाल लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

4

- (i) मैसर्स फर्नीचर मार्ट से 2,50,000 ₹ के फर्नीचर का क्रय किया। मैसर्स फर्नीचर मार्ट को भुगतान 10 ₹ प्रत्येक के समता अंशों को 25% के प्रीमियम पर निर्गमित करके किया गया।
- (ii) अमन लिमिटेड से 15,00,000 ₹ की राशि का एक चालू व्यवसाय खरीदा जिसमें 12,00,000 ₹ का भुगतान 10 ₹ प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों द्वारा तथा शेष राशि का बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया गया। सम्पत्तियाँ तथा दायित्व निम्नलिखित से सम्बन्धित थे :
- संयंत्र (प्लान्ट) 3,50,000 ₹; स्टॉक 4,50,000 ₹; भूमि एवं भवन 6,00,000 ₹; विविध लेनदार 1,00,000 ₹।

Pass necessary journal entries for the following transactions in the books of Gopal Ltd. :

- (i) Purchased furniture for ₹ 2,50,000 from M/s Furniture Mart. The payment to M/s Furniture Mart was made by issuing equity shares of ₹ 10 each at a premium of 25%.
- (ii) Purchased a running business from Aman Ltd. for a sum of ₹ 15,00,000. The payment of ₹ 12,00,000 was made by issue of fully paid equity shares of ₹ 10 each and balance by a bank draft. The assets and liabilities consisted of the following :
- Plant ₹ 3,50,000; Stock ₹ 4,50,000; Land and Building ₹ 6,00,000; Sundry Creditors ₹ 1,00,000.

12. सिंह एवं गुप्ता ने कम कीमत वाले जूट बैग बनाने के लिए एक साझेदारी फर्म शुरू करने का निर्णय लिया क्योंकि प्लास्टिक बैग विभिन्न प्रकार की पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 1 अप्रैल, 2012 को क्रमशः 1,00,000 ₹ तथा 50,000 ₹ की पूँजी व्यवसाय में लगाई। सिंह ने शक्ति को बिना पूँजी के साझेदार के रूप में फर्म में प्रविष्ट कराने की अपनी इच्छा व्यक्त की। शक्ति उसका विशेष रूप से योग्य लेकिन अत्यधिक सृजनात्मक एवं बुद्धिमान मित्र है। गुप्ता ने इसे स्वीकार कर लिया। साझेदारी की शर्तें निम्नलिखित थीं :

(i) सिंह, गुप्ता एवं शक्ति 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभों का बँटवारा करेंगे।

(ii) पूँजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा।

पूँजी की कमी के कारण 30 सितम्बर, 2012 को सिंह ने 25,000 ₹ तथा 1 जनवरी, 2013 को गुप्ता ने 10,000 ₹ की अतिरिक्त पूँजी लगाई। 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ 1,68,900 ₹ था।

(अ) ऐसे कोई दो मूल्य पहचानिए जो फर्म समाज को सम्प्रेषित करना चाहती है।

(ब) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।

Singh and Gupta decided to start a partnership firm to manufacture low cost jute bags as plastic bags were creating many environmental problems. They contributed capitals of ₹ 1,00,000 and ₹ 50,000 on 1<sup>st</sup> April, 2012 for this. Singh expressed his willingness to admit Shakti as a partner without capital, who is specially abled but a very creative and intelligent friend of his. Gupta agreed to this. The terms of partnership were as follows :

(i) Singh, Gupta and Shakti will share profits in the ratio of 2 : 2 : 1.

(ii) Interest on capital will be provided @ 6% p.a.

Due to shortage of capital, Singh contributed ₹ 25,000 on 30<sup>th</sup> September, 2012 and Gupta contributed ₹ 10,000 on 1<sup>st</sup> January, 2013 as additional capital. The profit of the firm for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2013 was ₹ 1,68,900.

(a) Identify any two values which the firm wants to communicate to the society.

(b) Prepare Profit and Loss Appropriation Account for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2013.

13. मोनिका, सोनिका तथा मंशा एक फर्म में साझेदार थीं तथा क्रमशः 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभों को विभाजित कर रही थीं। 31 मार्च, 2013 को उनका स्थिति विवरण निम्नलिखित था :

**31 मार्च, 2013 को स्थिति विवरण**

देयताएँ	राशि ₹	सम्पत्तियाँ	राशि ₹
पूँजी :		स्थायी सम्पत्तियाँ	3,60,000
मोनिका	1,80,000	स्टॉक	60,000
सोनिका	1,50,000	देनदार	1,20,000
मंशा	<u>90,000</u>	रोकड़	2,70,000
संचय कोष	1,50,000		
लेनदार	2,40,000		
	8,10,000		8,10,000

30 जून, 2013 को सोनिका की मृत्यु हो गई। शेष साझेदारों और उसके उत्तराधिकारी के बीच सहमति हुई कि

- (अ) फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले चार वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर होगा। औसत लाभ 2,00,000 ₹ था।
- (ब) पूँजी पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा।
- (स) मृत्यु की तिथि तक लाभों में उसके हिस्से की गणना पिछले चार वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी।

30 जून, 2013 को सोनिका का पूँजी खाता तैयार कीजिए।

4

Monika, Sonika and Mansha were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2 : 2 : 1 respectively. On 31<sup>st</sup> March, 2013 their Balance Sheet was as under :

**Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2013**

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Capitals :		Fixed Assets	3,60,000
Monika   1,80,000		Stock	60,000
Sonika   1,50,000		Debtors	1,20,000
Mansha <u>90,000</u>	4,20,000	Cash	2,70,000
Reserve Fund	1,50,000		
Creditors	2,40,000		
	8,10,000		8,10,000

Sonika died on 30<sup>th</sup> June, 2013. It was agreed between her executors and the remaining partners that

- Goodwill of the firm be valued at 3 years' purchase of average profits for the last four years. The average profits were ₹ 2,00,000.
- Interest on capital be provided at 12% p.a.
- Her share in the profits upto the date of death will be calculated on the basis of average profits for the last four years.

Prepare Sonika's Capital Account as on 30<sup>th</sup> June, 2013.



14. 1 अप्रैल, 2012 को 20,00,000 ₹ की अधिकृत पूँजी के साथ ब्लू हैवन लिमिटेड का निर्माण किया गया जो 10 ₹ प्रत्येक के 2,00,000 समता अंशों में विभाजित थी। कम्पनी ने 1,80,000 समता अंशों के लिए प्रविवरण निर्गमित कर आवेदन आमंत्रित किए। कम्पनी को 1,70,000 समता अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्रथम वर्ष में कम्पनी ने 8 ₹ प्रति अंश की याचना की। अरुण ने जो 2,000 अंशों का धारक था तथा वरुण ने जो 4,000 अंशों का धारक था, 2 ₹ प्रति अंश की प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। प्रथम याचना के बाद वरुण के अंशों का हरण कर लिया गया तथा बाद में हरण किए गए 3,000 अंशों को 6 ₹ प्रति अंश, 8 ₹ याचित पर पुनः निर्गमित कर दिया गया।

निम्नलिखित दर्शाइए :

- (अ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की परिशोधित सारणी VI भाग I के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण में अंश पूँजी।
- (ब) उसी के लिए 'खातों के नोट्स' भी बनाइए।

4

On 1<sup>st</sup> April, 2012, Blue Heaven Ltd. was formed with an authorised capital of ₹ 20,00,000 divided into 2,00,000 equity shares of ₹ 10 each. The company issued prospectus inviting applications for 1,80,000 equity shares. The company received applications for 1,70,000 equity shares. During the first year, ₹ 8 per share were called. Arun holding 2,000 shares and Varun holding 4,000 shares did not pay the first call of ₹ 2 per share. Varun's shares were forfeited after the first call and later on 3,000 of the forfeited shares were re-issued at ₹ 6 per share, ₹ 8 called up.

Show the following :

- (a) Share Capital in the Balance Sheet of the company as per revised Schedule VI Part I of the Companies Act, 1956.
- (b) Also prepare 'Notes to Accounts' for the same.

15. अंजू, मंजू तथा रुचि एक फर्म में साझेदार थीं जो दवाइयों का व्यापार करती थीं। वे 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभों का बँटवारा कर रही थीं। 1 अप्रैल, 2012 को उनकी पूँजी क्रमशः 3,00,000 ₹, 5,00,000 ₹ तथा 7,00,000 ₹ थी। उत्तराखण्ड में बाढ़ आने के बाद, सभी साझेदारों ने व्यक्तिगत रूप से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने का निर्णय लिया। इसके लिए अंजू ने 1 अगस्त, 2012 को फर्म से 30,000 ₹ का आहरण किया। मंजू ने रोकड़ का आहरण करने की अपेक्षा फर्म से 25,000 ₹ की दवाइयाँ लीं और बाढ़ पीड़ितों में उन्हें बाँट दिया। दूसरी ओर, रुचि ने 1 दिसम्बर, 2012 को अपनी पूँजी से 1,50,000 ₹ का आहरण किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुएँ प्रदान कीं। साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर प्रति वर्ष 6% की दर से ब्याज लिया जाएगा। अंतिम खाते तैयार करने के बाद यह पाया गया कि आहरण पर ब्याज नहीं लिया गया। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए तथा कार्यकारी टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से दर्शाइए। ऐसे किन्हीं दो मूल्यों का भी उल्लेख कीजिए जो ये साझेदार समाज को सम्प्रेषित करना चाहते हैं।

6

Anju, Manju and Ruchi were partners in a firm trading in medicines. They were sharing profits in the ratio of 5 : 3 : 2. Their capitals on 1<sup>st</sup> April, 2012 were ₹ 3,00,000, ₹ 5,00,000 and ₹ 7,00,000 respectively. After the flood in Uttarakhand, all partners decided to help the flood victims personally.

For this Anju withdrew ₹ 30,000 from the firm on 1<sup>st</sup> August, 2012. Manju instead of withdrawing cash from the firm took medicines amounting to ₹ 25,000 from the firm and distributed those to the flood victims. On the other hand, Ruchi withdrew ₹ 1,50,000 from her capital on 1<sup>st</sup> December, 2012 and provided the necessary items of daily use in the flood affected area.

The partnership deed provides for charging interest on drawings @ 6% p.a. After the final accounts were prepared it was discovered that interest on drawings had not been charged. Give the necessary adjusting journal entry and show the working notes clearly. Also state any two values which the partners wanted to communicate to the society.

16. हनीफ़ तथा जूबेद एक फर्म के साझेदार थे तथा अपनी पूँजी के अनुपात में लाभ बाँटते थे । 31 मार्च, 2013 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

**31 मार्च, 2013 को हनीफ़ तथा जूबेद का स्थिति विवरण**

देयताएँ	राशि ₹	सम्पत्तियाँ	राशि ₹
लेनदार	1,50,000	बैंक	2,00,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि	3,00,000	देनदार	3,40,000
सामान्य संचय	75,000	रहतिया (स्टॉक)	1,50,000
हनीफ़ का चालू खाता	25,000	फर्नीचर	4,60,000
पूँजी :		मशीनरी	8,20,000
हनीफ़ 10,00,000		जूबेद का चालू खाता	80,000
जूबेद <u>5,00,000</u>	15,00,000		
	20,50,000		20,50,000

उपर्युक्त तिथि को फर्म का समापन हो गया ।

- देनदारों से 5% बट्टे पर वसूली हुई । हनीफ़ ने 50% रहतिया (स्टॉक) पुस्तक मूल्य से 10% कम मूल्य पर ले लिया । शेष रहतिया को 65,000 ₹ में बेच दिया गया ।
- जूबेद ने 1,35,000 ₹ में फर्नीचर ले लिया । मशीनरी को कबाड़ में 74,000 ₹ में बेच दिया गया ।
- लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया ।
- 8,000 ₹ के वसूली व्ययों का भुगतान हनीफ़ ने किया ।

वसूली खाता तैयार कीजिए ।

Hanif and Jubed were partners in a firm sharing profits in the ratio of their capitals. On 31<sup>st</sup> March, 2013 their Balance Sheet was as follows :

**Balance Sheet of Hanif and Jubed as on 31<sup>st</sup> March, 2013**

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Creditors	1,50,000	Bank	2,00,000
Workmen's Compensation Fund	3,00,000	Debtors	3,40,000
General Reserve	75,000	Stock	1,50,000
Hanif's Current Account	25,000	Furniture	4,60,000
Capitals :		Machinery	8,20,000
Hanif      10,00,000		Jubed's Current Account	80,000
Jubed <u>5,00,000</u>	15,00,000		
	20,50,000		20,50,000

On the above date the firm was dissolved.

- (i) Debtors were realised at a discount of 5%. 50% of the stock was taken over by Hanif at 10% less than the book value. Remaining stock was sold for ₹ 65,000.
- (ii) Furniture was taken over by Jubed for ₹ 1,35,000. Machinery was sold as scrap for ₹ 74,000.
- (iii) Creditors were paid in full.
- (iv) Expenses on realisation ₹ 8,000 were paid by Hanif.

Prepare Realisation Account.

17. शिखर तथा रोहित एक फर्म में साझेदार थे तथा 7 : 3 के अनुपात में लाभ बाँटते थे । 1 अप्रैल, 2013 को उन्होंने कवि को फर्म के लाभों में 1/4 भाग के लिए एक नए साझेदार के रूप में प्रविष्ट कराया । कवि 4,30,000 ₹ अपनी पूँजी के लिए तथा 25,000 ₹ अपने ख्याति प्रीमियम के भाग के लिए लाया । 1 अप्रैल, 2013 को शिखर तथा रोहित का स्थिति विवरण निम्नानुसार था :

**1 अप्रैल, 2013 को शिखर तथा रोहित का स्थिति विवरण**

देयताएँ	राशि ₹	सम्पत्तियाँ	राशि ₹
पूँजी :		भूमि तथा भवन	3,50,000
शिखर     8,00,000		मशीनरी	4,50,000
रोहित <u>3,50,000</u>	11,50,000	देनदार     2,20,000	
		घटा प्रावधान <u>20,000</u>	2,00,000
सामान्य संचय	1,00,000	स्टॉक	3,50,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि	1,00,000	रोकड़	1,50,000
लेनदार	1,50,000		
	15,00,000		15,00,000

यह निर्णय लिया गया कि

- भूमि तथा भवन का मूल्य 20% बढ़ाया जाएगा ।
- मशीनरी का मूल्य 10% कम किया जाएगा ।
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि की देयता 50,000 ₹ निश्चित की गई ।
- शिखर तथा रोहित की पूँजी कवि द्वारा लाई गई पूँजी के आधार पर समायोजित की जाएगी और इसके लिए आवश्यकतानुसार रोकड़ लाया जाएगा तथा इसका भुगतान किया जाएगा ।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा नई फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए ।

8

अथवा

एल, एम तथा एन एक फर्म में साझेदार थे तथा 2 : 1 : 1 के अनुपात में लाभ बाँटते थे ।  
1 अप्रैल, 2013 को उनका स्थिति विवरण निम्नानुसार था :

**1 अप्रैल, 2013 को एल, एम तथा एन का स्थिति विवरण**

देयताएँ	राशि ₹	सम्पत्तियाँ	राशि ₹
पूँजी :		भूमि	8,00,000
एल 6,00,000		भवन	6,00,000
एम 4,80,000		फर्नीचर	2,40,000
एन <u>4,80,000</u>	15,60,000	देनदार 4,00,000	
		घटा प्रावधान <u>20,000</u>	3,80,000
सामान्य संचय	4,40,000	स्टॉक	4,40,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि	3,60,000	रोकड़	1,40,000
लेनदार	2,40,000		
	26,00,000		26,00,000

उपर्युक्त तिथि को एन ने अवकाश ग्रहण किया ।

निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,00,000 ₹ किया गया ।
- भूमि का मूल्य 40% बढ़ाया जाएगा तथा भवन पर 1,00,000 ₹ का मूल्यहास लगाया जाएगा ।
- फर्नीचर पर 30,000 ₹ का मूल्यहास लगाया जाएगा ।
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि की देयता 1,60,000 ₹ निश्चित हुई ।
- एन को देय राशि को उसके ऋण खाते में स्थानान्तरित किया जाएगा ।
- एल तथा एम की पूँजी को उनके नए लाभ अनुपात में समायोजित किया जाएगा तथा इसके लिए साझेदारों के चालू खाते खोले जाएँगे ।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तथा नई फर्म का स्थिति विवरण बनाइए ।

Shikhar and Rohit were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7 : 3. On 1<sup>st</sup> April, 2013 they admitted Kavi as a new partner for 1/4 share in profits of the firm. Kavi brought ₹ 4,30,000 as his capital and ₹ 25,000 for his share of goodwill premium. The Balance Sheet of Shikhar and Rohit as on 1<sup>st</sup> April, 2013 was as follows :

**Balance Sheet of Shikhar and Rohit as on 1<sup>st</sup> April, 2013**

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Capitals :		Land and Building	3,50,000
Shikhar 8,00,000		Machinery	4,50,000
Rohit <u>3,50,000</u>	11,50,000	Debtors 2,20,000	
		Less provision <u>20,000</u>	2,00,000
General Reserve	1,00,000	Stock	3,50,000
Workmen's Compensation Fund	1,00,000	Cash	1,50,000
Creditors	1,50,000		
	15,00,000		15,00,000

It was agreed that

- (i) the value of Land and Building will be appreciated by 20%.
- (ii) the value of Machinery will be depreciated by 10%.
- (iii) the liabilities of Workmen's Compensation Fund was determined at ₹ 50,000.
- (iv) capitals of Shikhar and Rohit will be adjusted on the basis of Kavi's capital and actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be.

Prepare Revaluation Account, Partners' Capital Accounts and the Balance Sheet of the new firm.

**OR**

L, M and N were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2 : 1 : 1.  
On 1<sup>st</sup> April, 2013 their Balance Sheet was as follows :

**Balance Sheet of L, M and N as on 1<sup>st</sup> April, 2013**

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Capitals :		Land	8,00,000
L      6,00,000		Building	6,00,000
M      4,80,000		Furniture	2,40,000
N <u>4,80,000</u>	15,60,000	Debtors      4,00,000	
		Less provision <u>20,000</u>	3,80,000
General Reserve	4,40,000	Stock	4,40,000
Workmen's Compensation Fund	3,60,000	Cash	1,40,000
Creditors	2,40,000		
	<u>26,00,000</u>		<u>26,00,000</u>

On the above date N retired.

The following were agreed :

- (i) Goodwill of the firm was valued at ₹ 6,00,000.
- (ii) Land was to be appreciated by 40% and Building was to be depreciated by ₹ 1,00,000.
- (iii) Furniture was to be depreciated by ₹ 30,000.
- (iv) The liabilities for Workmen's Compensation Fund was determined at ₹ 1,60,000.
- (v) Amount payable to N was transferred to his loan account.
- (vi) Capitals of L and M were to be adjusted in their new profit sharing ratio and for this purpose current accounts of the partners will be opened.

Prepare Revaluation Account, Partners' Capital Accounts and the Balance Sheet of the new firm.



18. के वाई लिमिटेड ने 10 ₹ प्रत्येक के 60,000 समता अंशों को 4 ₹ प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए। राशि निम्न प्रकार से देय थी :

आवेदन तथा आबंटन पर – 8 ₹ प्रति अंश (प्रीमियम सहित)

प्रथम एवं अन्तिम याचना पर – शेष धनराशि।

2,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 80,000 अंशों के लिए आवेदनों को रद्द कर दिया गया तथा आवेदन राशि वापस कर दी गई। शेष आवेदकों को अनुपातिक आधार पर अंशों का आबंटन कर दिया गया। प्रथम तथा अन्तिम याचना राशि माँग ली गई। केवल मुकेश, जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, को छोड़कर समस्त राशि प्राप्त हो गई। उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किए गए अंशों को 8 ₹ प्रति अंश पर पूर्ण प्रदत्त पुनः निर्गमित कर दिया गया।

उपर्युक्त लेनदेनों के लिए के वाई लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

8

**अथवा**

जे वाई लिमिटेड ने 10 ₹ प्रत्येक के 70,000 समता अंशों को 10% के बट्टे पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए। राशि निम्न प्रकार से देय थी :

आवेदन तथा आबंटन पर – 4 ₹ प्रति अंश

प्रथम एवं अन्तिम याचना पर – शेष धनराशि।

2,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 60,000 अंशों के लिए आवेदनों को रद्द कर दिया गया तथा आवेदन राशि वापस कर दी गई। शेष आवेदकों को अनुपातिक आधार पर अंशों का आबंटन कर दिया गया। प्रथम तथा अन्तिम याचना राशि माँग ली गई। केवल नरेश, जिसने 1,400 अंशों के लिए आवेदन किया था, को छोड़कर समस्त धनराशि प्राप्त हो गई। उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किए गए अंशों को कानून द्वारा प्रदान अधिकतम बट्टा राशि पर पुनः निर्गमित कर दिया गया।

उपर्युक्त लेनदेनों के लिए जे वाई लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

8

KY Ltd. invited applications for issuing 60,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 4 per share. The amount was payable as follows :

On application and allotment – ₹ 8 per share (including premium)

On first and final call – the balance amount.

Applications for 2,00,000 shares were received. Applications for 80,000 shares were rejected and money refunded. Shares were allotted on pro-rata basis to the remaining applicants. The first and final call was made. The amount was duly received except on 600 shares applied by Mukesh. His shares were forfeited. The forfeited shares were re-issued at ₹ 8 per share fully paid-up.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of KY Ltd.

**OR**

JY Ltd. invited applications for issuing 70,000 equity shares of ₹ 10 each at a discount of 10%. The amount was payable as follows :

On application and allotment – ₹ 4 per share

On first and final call – the balance amount.

Applications for 2,00,000 shares were received. Applications for 60,000 shares were rejected and money refunded. Shares were allotted on pro-rata basis to the remaining applicants. The first and final call was made. All money was received except on 1,400 shares applied by Naresh. His shares were forfeited. The forfeited shares were re-issued at the maximum discount permissible under the law.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of JY Ltd.

**भाग ख**

**(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)**

**PART B**

**(Financial Statements Analysis)**

19. रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय 'रोकड़ प्रवाह' के अर्थ का उल्लेख कीजिए । 1  
State the meaning of 'Cash Flow' while preparing Cash Flow Statement.
20. रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय वित्तीय गतिविधियों के द्वारा रोकड़ प्रवाह को पृथक् दर्शाना क्यों महत्त्वपूर्ण है ? 1  
Why is specific disclosure of cash flow from financing activities important while preparing Cash Flow Statement ?
21. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के किसी एक उद्देश्य का उल्लेख कीजिए । 1  
State any one objective of financial statements analysis.
22. कम्पनी अधिनियम, 1956 की परिशोधित सूची VI भाग I के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण में निम्न मर्दें किन उप-शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई जाएँगी : 3
- पूँजीगत संचय
  - बॉन्ड्स
  - माँग पर देय ऋण
  - वाहन
  - ख्याति
  - खुदरा औज़ार

Under which sub-headings will the following items be placed in the Balance Sheet of a company as per revised Schedule VI Part I of the Companies Act, 1956 :

- Capital Reserves
- Bonds
- Loans repayable on demand
- Vehicles
- Goodwill
- Loose tools

23. कोरेक्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्न लाभ-हानि विवरण से तुलनात्मक लाभ-हानि विवरण तैयार कीजिए :

4

विवरण	नोट संख्या	2012 - 13 ₹	2011 - 12 ₹
प्रचालन से प्राप्त आय		14,00,000	11,00,000
अन्य आय		2,00,000	1,40,000
व्यय		8,00,000	9,00,000

आय कर दर 40% थी ।

From the following Statement of Profit and Loss of Corex Ltd. for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2013, prepare a Comparative Statement of Profit and Loss :

Particulars	Note No.	2012 - 13 ₹	2011 - 12 ₹
Revenue from operations		14,00,000	11,00,000
Other Incomes		2,00,000	1,40,000
Expenses		8,00,000	9,00,000

Rate of income tax was 40%.

24. (अ) एक कम्पनी का तरलता अनुपात 1.5 : 1 है । कारण सहित उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित लेनदेनों से अनुपात में (i) वृद्धि होगी; (ii) कमी होगी या (iii) कोई परिवर्तन नहीं आएगा :
- (1) 3,000 ₹ किराए का अग्रिम भुगतान किया गया ।
  - (2) व्यापारिक प्राप्यों में एक देनदार श्री अशोक सम्मिलित था जिसने देय राशि 9,700 ₹ का पूर्ण भुगतान कर दिया ।

(ब) निम्नलिखित सूचना से 'स्वामित्व अनुपात' की गणना कीजिए :

	₹
दीर्घकालीन ऋण	2,00,000
दीर्घकालीन आयोजन	1,00,000
चालू दायित्व	50,000
अचल परिसम्पत्तियाँ	3,60,000
चालू परिसम्पत्तियाँ	90,000

4

(a) The quick ratio of a company is 1.5 : 1. State with reason which of the following transactions would (i) increase; (ii) decrease or (iii) not change the ratio :

- (1) Paid rent ₹ 3,000 in advance.
- (2) Trade receivables included a debtor Shri Ashok who paid his entire amount due ₹ 9,700.

(b) From the following information compute 'Proprietary Ratio' :

	₹
Long Term Borrowings	2,00,000
Long Term Provisions	1,00,000
Current Liabilities	50,000
Non-Current Assets	3,60,000
Current Assets	90,000

25. सिमको लिमिटेड की 31.3.2013 तथा 31.3.2012 के स्थिति विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए :

6

विवरण	नोट संख्या	31.3.2013 ₹	31.3.2012 ₹
<b>I – समता तथा देयताएँ :</b>			
1. अंशधारक निधियाँ :			
(अ) अंश पूँजी		2,00,000	1,50,000
(ब) संचय एवं आधिक्य		90,000	75,000
2. अचल देयताएँ :			
दीर्घकालीन ऋण		87,500	87,500
3. चालू देयताएँ :			
व्यापारिक देयताएँ		10,000	76,000
	<b>कुल</b>	<b>3,87,500</b>	<b>3,88,500</b>
<b>II – परिसम्पत्तियाँ :</b>			
1. अचल परिसम्पत्तियाँ :			
(अ) स्थायी परिसम्पत्तियाँ :			
(i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ		1,87,500	1,40,000
(ब) अचल निवेश		1,05,500	1,02,500
2. चालू परिसम्पत्तियाँ :			
(अ) चालू विनियोग (विक्रय-योग्य)		12,500	33,500
(ब) स्टॉक (मालसूची)		4,000	5,500
(स) व्यापारिक प्राप्तियाँ		9,500	23,000
(द) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		68,500	84,000
	<b>कुल</b>	<b>3,87,500</b>	<b>3,88,500</b>

**खातों के नोट्स**

नोट 1

विवरण	2013 ₹	2012 ₹
संचय एवं आधिक्य आधिक्य (लाभ-हानि विवरण का शेष)	90,000	75,000

Prepare a Cash Flow Statement on the basis of the information given in the Balance Sheet of Simco Ltd. as at 31.3.2013 and 31.3.2012 :

	Particulars	Note No.	31.3.2013 ₹	31.3.2012 ₹
<b>I – Equity and Liabilities :</b>				
<b>1. Shareholder’s Funds :</b>				
	(a) Share Capital		2,00,000	1,50,000
	(b) Reserves and Surplus		90,000	75,000
<b>2. Non-Current Liabilities :</b>				
	Long Term Borrowings		87,500	87,500
<b>3. Current Liabilities :</b>				
	Trade Payables		10,000	76,000
	<b>Total</b>		<b>3,87,500</b>	<b>3,88,500</b>
<b>II – Assets :</b>				
<b>1. Non-Current Assets :</b>				
<b>(a) Fixed Assets :</b>				
	(i) Tangible Assets		1,87,500	1,40,000
	<b>(b) Non-Current Investments</b>		<b>1,05,500</b>	<b>1,02,500</b>
<b>2. Current Assets :</b>				
	(a) Current Investments (Marketable)		12,500	33,500
	(b) Inventories		4,000	5,500
	(c) Trade Receivables		9,500	23,000
	(d) Cash and Cash Equivalents		68,500	84,000
	<b>Total</b>		<b>3,87,500</b>	<b>3,88,500</b>

**Notes to Accounts**

**Note 1**

Particulars	2013 ₹	2012 ₹
<b>Reserves and Surplus</b>		
Surplus (Balance in Statement of Profit & Loss)	90,000	75,000

**भाग ग  
(अभिकलित्र लेखांकन)**

**PART C  
(Computerised Accounting)**

19. आवश्यकता विश्लेषण क्या है ? 1  
What is requirement analysis ?
20. अभिकलित्र लेखांकन तंत्र के एक घटक के रूप में 'आँकड़ों' का क्या अर्थ है ? 1  
What is meant by 'data' as a component of Computerised Accounting System ?
21. सम्बन्धात्मक डाटाबेस क्या है ? 1  
What is relational database ?
22. अभिकलित्र लेखांकन तंत्र के किन्हीं दो लाभों तथा एक सीमा को समझाइए । 3  
Explain any two advantages and one limitation of Computerised Accounting System.
23. 'डैस्कटॉप डाटाबेस' तथा 'सर्वर डाटाबेस' में किन्हीं चार आधारों पर अन्तर्भेद कीजिए । 4  
Differentiate between 'Desktop database' and 'Server database' on any four basis.
24. डाटा वैधीकरण से क्या अभिप्राय है ? ऐसे दो उदाहरण दीजिए जब मूल्य शर्तों को पूरा नहीं करते और इस कारणवश सेल अशुद्धि दर्शाते हैं । 4  
What is meant by data validation ? Give two examples when cell will give error if the values are not meeting the conditions.
25. निम्नलिखित सूचना से निम्न राशियों की गणना के लिए एक्सेल पर सूत्र की गणना कीजिए : 6  
(अ) यात्रा भत्ता के लिए, मूल वेतन 25,000 ₹ तक 20% की दर से तथा इससे ऊपर 25% की दर से ।  
(ब) देय ऋण के लिए, मूल वेतन 25,000 ₹ तक 15% की दर से तथा इससे ऊपर 20% की दर से ।  
(स) शुद्ध वेतन के लिए, मूल वेतन में यात्रा भत्ता जोड़कर तथा देय ऋण घटाकर ।  
Calculate the formulae from the following information on Excel for computing the amounts of :  
(a) Travelling Allowance, Basic Pay upto ₹ 25,000 at 20% and above it at 25%.  
(b) Loan Payable, Basic Pay upto ₹ 25,000 at 15% and 20% above that.  
(c) Net Salary, adding Travelling Allowance and deducting Loan Payable from Basic Pay.



Q.Set No.			Marking Scheme 2013-14 Accountancy Outside-67/2 Expected Answers /Value points	Distribu tion of marks																																													
67/ 2	67/ 2	67/ 2																																															
7	1	3	<b>Q.</b> What.....security. <b>Ans.</b> It means issue of debentures as an additional or secondary security in addition to principal security for taking loan.	1 mark																																													
5	2	7	<b>Q.</b> D Ltd..... answer. <b>Ans.</b> Allotment of shares can't take place as minimum subscription is not received which should be 90% of shares offered for subscription or 9,00,000.	1 mark																																													
3	3	6	<b>Q. Distinguish between ..... intervention.</b> <b>Ans.</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Basis</th> <th style="width: 33%;">Dissolution of Partnership</th> <th style="width: 33%;">Dissolution of Partnership Firm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Court intervention</td> <td>Court doesn't intervene because partnership is dissolved by mutual agreement</td> <td>A firm can be dissolved by court order.</td> </tr> </tbody> </table>	Basis	Dissolution of Partnership	Dissolution of Partnership Firm	Court intervention	Court doesn't intervene because partnership is dissolved by mutual agreement	A firm can be dissolved by court order.	1 mark																																							
Basis	Dissolution of Partnership	Dissolution of Partnership Firm																																															
Court intervention	Court doesn't intervene because partnership is dissolved by mutual agreement	A firm can be dissolved by court order.																																															
1	4	4	<b>Q. X,Y and Z were..... remaining partners.</b> <b>Ans.</b> Y's gain = $3/5 - 3/10 = 3/10$ Z's gain = $2/5 - 2/10 = 2/10$ <u>Gaining ratio = 3:2</u>	1 mark																																													
4	5	2	<b>Q. Give.....firm.</b> <b>Ans.</b> Reconstitution of a partnership firm means any change in existing agreement among the partners.	1 mark																																													
2	6	5	<b>Q. State the .....partner.</b> <b>Ans.(a)</b> Right to share profits with other partners in agreed ratio. <b>(b)</b> Right to share in the assets of the business.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} =$ 1 mark																																													
6	7	1	<b>Q.</b> A Ltd..... reissued. <b>Ans.</b> These shares can be reissued upto a discount of ₹ 7 per share or ₹700.	1 mark																																													
10	8	9	<b>Q. Pass necessary.....paid up.</b> <b>Ans. (I)</b> <p align="center"><b>In the books of Sunrise Ltd.</b></p> <p align="center"><b>Journal</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Date</th> <th style="width: 50%;">Particulars</th> <th style="width: 5%;">LF</th> <th style="width: 15%;">Dr (₹)</th> <th style="width: 15%;">Cr (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9% Debenture A/c <span style="float: right;">Dr.</span></td> <td></td> <td align="right">50,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>To Discount on issue of Debentures</td> <td></td> <td></td> <td align="right">5,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>To Debenture holder A/c</td> <td></td> <td></td> <td align="right">45,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Being debentures redeemed by conversion)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Debenture holder A/c <span style="float: right;">Dr.</span></td> <td></td> <td align="right">45,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>To Equity Share Capital A/c</td> <td></td> <td></td> <td align="right">36,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>To Securities Premium A/c</td> <td></td> <td></td> <td align="right">9,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Amount due to debenture holder on conversion by issue of 360 equity shares)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)		9% Debenture A/c <span style="float: right;">Dr.</span>		50,000			To Discount on issue of Debentures			5,000		To Debenture holder A/c			45,000		(Being debentures redeemed by conversion)					Debenture holder A/c <span style="float: right;">Dr.</span>		45,000			To Equity Share Capital A/c			36,000		To Securities Premium A/c			9,000		(Amount due to debenture holder on conversion by issue of 360 equity shares)				<p><math>\frac{1}{2}</math></p> <p>1</p>
Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)																																													
	9% Debenture A/c <span style="float: right;">Dr.</span>		50,000																																														
	To Discount on issue of Debentures			5,000																																													
	To Debenture holder A/c			45,000																																													
	(Being debentures redeemed by conversion)																																																
	Debenture holder A/c <span style="float: right;">Dr.</span>		45,000																																														
	To Equity Share Capital A/c			36,000																																													
	To Securities Premium A/c			9,000																																													
	(Amount due to debenture holder on conversion by issue of 360 equity shares)																																																

**OR Alternative Answer  
In the books of Sunrise Ltd.  
Journal**

Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)
	9% Debenture A/c Dr. To Debenture holder A/c (Being debentures redeemed by conversion)		50,000	50,000
	Debenture holder A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium A/c (Amount due to debenture holder on conversion by issue of 400 equity shares)		50,000	40,000 10,000

½

1

**(ii)**

**In the books of Britannia Ltd.  
Journal**

Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)
	12% Debenture A/c Dr. To Discount on issue of Debentures To Debentures holder A/c (Being debentures redeemed by conversion)		3,00,000	30,000 2,70,000
	Debenture holder A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being 2,700 shares issued)		2,70,000	2,70,000

½

1

**Alternative Answer**

**In the books of Britannia Ltd.  
Journal**

Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)
	12% Debenture A/c Dr. To Debentures holder A/c (Being debentures redeemed by conversion)		3,00,000	3,00,000
	Debenture holder A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Bank A/c (Being 3,333 shares issued & fractional amount is paid in cash)		3,00,000	2,99,970 30

½

1

(1½ x 2)  
= 3  
Marks

8 9 10

**Q.** Hemant.....admission.  
**Ans.**

**Journal**

Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)
	Cash A/c / Bank A/c Dr. To Somesh's Capital A/c (Being capital brought in cash)		1,20,000	1,20,000
	Somesh's capital A/c / Somesh's Current A/c Dr. To Hemant's Capital A/c To Nishant's Capital A/c (Somesh's share of goodwill credited to Hemant and Nishant)		44,000	26,400 17,600

1

1

		<p>Total capital of the firm = 1,20,000 x 5 = ₹ 6,00,000                  Combined capital of Hemant, Nishant and Somesh = 1,60,000 + 1,00,000 + 1,20,000 = ₹ 3,80,000</p> <p>Goodwill of the firm = 6,00,000 – 3,80,000 = ₹ 2,20,000                  Somesh's share of goodwill = 2,20,000 x 1/5 = ₹ 44,000</p>	<p>1                  =                  (1+1+1)                  =                  3 Marks</p>
--	--	---	--

9	10	8	<p><b>Q.</b> Tata Ltd. ....loss.  <b>Ans.</b></p> <p align="center"><b>In the books of Tata Ltd.</b>  <b>Journal</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Particulars</th> <th>LF</th> <th>Dr (₹)</th> <th>Cr (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013 March 31</td> <td>Interest on debentures A/c Dr. To Debentures holders A/c To Income tax payable A/c /TDS from Debenture Interest a/c  (Being interest due)</td> <td></td> <td>25,000</td> <td>22,500 2,500</td> </tr> <tr> <td>March 31</td> <td>Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (Being interest paid)</td> <td></td> <td>22,500</td> <td>22,500</td> </tr> <tr> <td>March 31 **</td> <td>Income Tax Payable / TDS from Debenture Interest A/c Dr. To Bank A/c (TDS deposited with Income Tax authorities)</td> <td></td> <td>2,500</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td>March 31</td> <td>Statement of Profit &amp; Loss Dr. To Interest on Debentures A/c (Being interest transferred)</td> <td></td> <td>50,000</td> <td>50,000</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>** NOTE: No marks to be deducted in case student has not passed this entry.</b></p>	Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)	2013 March 31	Interest on debentures A/c Dr. To Debentures holders A/c To Income tax payable A/c /TDS from Debenture Interest a/c  (Being interest due)		25,000	22,500 2,500	March 31	Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (Being interest paid)		22,500	22,500	March 31 **	Income Tax Payable / TDS from Debenture Interest A/c Dr. To Bank A/c (TDS deposited with Income Tax authorities)		2,500	2,500	March 31	Statement of Profit & Loss Dr. To Interest on Debentures A/c (Being interest transferred)		50,000	50,000	<p>1                  1                  1                  1                  (1+1+1)                  = 3                  Marks</p>
Date	Particulars	LF	Dr (₹)	Cr (₹)																									
2013 March 31	Interest on debentures A/c Dr. To Debentures holders A/c To Income tax payable A/c /TDS from Debenture Interest a/c  (Being interest due)		25,000	22,500 2,500																									
March 31	Debenture holders A/c Dr. To Bank A/c (Being interest paid)		22,500	22,500																									
March 31 **	Income Tax Payable / TDS from Debenture Interest A/c Dr. To Bank A/c (TDS deposited with Income Tax authorities)		2,500	2,500																									
March 31	Statement of Profit & Loss Dr. To Interest on Debentures A/c (Being interest transferred)		50,000	50,000																									

14	11	12	<p><b>Q.</b> Pass ..... Sundry creditors.  <b>Ans.</b></p> <p align="center"><b>Journal entries in books                  of Gopal Ltd.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Particulars</th> <th>L.F.</th> <th>Dr. Amt (₹)</th> <th>Cr. Amt (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(i) Furniture A/c Dr. To M/s Furniture Mart (Being furniture purchased)</td> <td></td> <td>2,50,000</td> <td>2,50,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>M/s Furniture Mart A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium/ Securities Premium Reserve A/c (Being shares issued as purchase consideration)</td> <td></td> <td>2,50,000</td> <td>2,00,000 50,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(ii) Plant A/c Dr. Stock A/c Dr. Land &amp; Building A/c Dr. Goodwill A/c Dr. To Sundry Creditors A/c To Aman Ltd (Being business purchased)</td> <td></td> <td>3,50,000 4,50,000 6,00,000 2,00,000</td> <td>1,00,000 15,00,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aman Ltd Dr. To Equity Share Capital A/c To Bank A/c</td> <td></td> <td>15,00,000</td> <td>12,00,000 3,00,000</td> </tr> </tbody> </table>	Date	Particulars	L.F.	Dr. Amt (₹)	Cr. Amt (₹)		(i) Furniture A/c Dr. To M/s Furniture Mart (Being furniture purchased)		2,50,000	2,50,000		M/s Furniture Mart A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium/ Securities Premium Reserve A/c (Being shares issued as purchase consideration)		2,50,000	2,00,000 50,000		(ii) Plant A/c Dr. Stock A/c Dr. Land & Building A/c Dr. Goodwill A/c Dr. To Sundry Creditors A/c To Aman Ltd (Being business purchased)		3,50,000 4,50,000 6,00,000 2,00,000	1,00,000 15,00,000		Aman Ltd Dr. To Equity Share Capital A/c To Bank A/c		15,00,000	12,00,000 3,00,000	<p>1                  1                  1                  1</p>
Date	Particulars	L.F.	Dr. Amt (₹)	Cr. Amt (₹)																									
	(i) Furniture A/c Dr. To M/s Furniture Mart (Being furniture purchased)		2,50,000	2,50,000																									
	M/s Furniture Mart A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium/ Securities Premium Reserve A/c (Being shares issued as purchase consideration)		2,50,000	2,00,000 50,000																									
	(ii) Plant A/c Dr. Stock A/c Dr. Land & Building A/c Dr. Goodwill A/c Dr. To Sundry Creditors A/c To Aman Ltd (Being business purchased)		3,50,000 4,50,000 6,00,000 2,00,000	1,00,000 15,00,000																									
	Aman Ltd Dr. To Equity Share Capital A/c To Bank A/c		15,00,000	12,00,000 3,00,000																									

			(Being shares issued and balance is paid by bank draft)					(1 x 4) = 4 Marks																																
11	12	13	<p><b>Q. Singh &amp; Gupta..... 31<sup>st</sup> March 2013.</b>  <b>Ans. (a) Values highlighted: (Any two)</b>                  (i) Recognition of talent                  (ii) Responsible citizen                  (iii) Environment Concern                  (iv) Helping, caring and sharing towards specially abled people.  <b>(OR ANY OTHER SUITABLE VALUE)</b></p> <p><b>(b)</b></p> <p align="center"><b>Profit and Loss Appropriation A/c</b>  <b>For the year ended March 31, 2013</b></p> <p><b>Dr.</b> <span style="float:right"><b>Cr.</b></span></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Particulars</th> <th style="width:10%;">Amount (₹)</th> <th style="width:45%;">Particulars</th> <th style="width:10%;">Amount (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>To Interest on Capital: Singh's Capital A/c Gupta's Capital's A/c</td> <td align="right">6,750 3,150 } 1</td> <td>By Profit and Loss A/c</td> <td align="right">1,68,900</td> </tr> <tr> <td>To profit transferred to: Singh's Capital A/c 63,600 Gupta's Capital A/c 63,600 Shakti's Capital A/c <u>31,800</u></td> <td align="right">} 1 1,59,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right"><u>1,68,900</u></td> <td></td> <td align="right"><u>1,68,900</u></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Working Notes:</b>                  Interest on Singh's Capital = 1,00,000 x 6/100 + 25,000 x 6/100 x 6/12 = 6,750                  Interest on Gupta's Capital = 50,000 x 6/100 + 10,000 x 6/100 x 3/12 = 3,150</p> <p align="center"><b>(NO MARKS FOR WORKING NOTES)</b></p>					Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)	To Interest on Capital: Singh's Capital A/c Gupta's Capital's A/c	6,750 3,150 } 1	By Profit and Loss A/c	1,68,900	To profit transferred to: Singh's Capital A/c 63,600 Gupta's Capital A/c 63,600 Shakti's Capital A/c <u>31,800</u>	} 1 1,59,000				<u>1,68,900</u>		<u>1,68,900</u>	<p>1 x 2 = 2</p> <p>1 + 1 = 2</p> <p>(2+2) = 4 Marks</p>																
Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)																																					
To Interest on Capital: Singh's Capital A/c Gupta's Capital's A/c	6,750 3,150 } 1	By Profit and Loss A/c	1,68,900																																					
To profit transferred to: Singh's Capital A/c 63,600 Gupta's Capital A/c 63,600 Shakti's Capital A/c <u>31,800</u>	} 1 1,59,000																																							
	<u>1,68,900</u>		<u>1,68,900</u>																																					
12	13	11	<p><b>Q. Monika.....2013.</b>  <b>Ans.</b></p> <p><b>Dr.</b> <span style="float:right"><b>Cr.</b></span></p> <p align="center">Sonika's Capital A/c</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Particulars</th> <th style="width:15%;">Amount (₹)</th> <th style="width:30%;">Particulars</th> <th style="width:15%;">Amount (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>To Sonika's executor a/c</td> <td align="right">½ ₹ 4,74,500</td> <td>By Balance b/d</td> <td align="right">1,50,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>By Reserve fund</td> <td align="right">60,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>By Monika's Capital a/c (G/w)</td> <td align="right">1,60,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>By Manisha's Capital A/c(G/w)</td> <td align="right">80,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>By P/L Suspense A/c (Share of Profit)</td> <td align="right">20,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>By Interest on Capital</td> <td align="right">4,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right"><u>4,74,500</u></td> <td></td> <td align="right"><u>4,74,500</u></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Working notes:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interest on capital = 1,50,000 x 3/12 x 12/100 = ₹ 4,500</li> <li>• Calculation of Sonika's share of goodwill = 2,00,000 x 3 x 2/5 = ₹ 2,40,000</li> <li>• Sonika's share of profit = 2,00,000 x 3/12 x 2/5 = ₹ 20,000</li> </ul> <p align="center"><b>(NO MARKS FOR WORKING NOTES)</b></p>					Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)	To Sonika's executor a/c	½ ₹ 4,74,500	By Balance b/d	1,50,000			By Reserve fund	60,000			By Monika's Capital a/c (G/w)	1,60,000			By Manisha's Capital A/c(G/w)	80,000			By P/L Suspense A/c (Share of Profit)	20,000			By Interest on Capital	4,500		<u>4,74,500</u>		<u>4,74,500</u>	<p>½ ½ ½ 1 1</p> <p>4 marks</p>
Particulars	Amount (₹)	Particulars	Amount (₹)																																					
To Sonika's executor a/c	½ ₹ 4,74,500	By Balance b/d	1,50,000																																					
		By Reserve fund	60,000																																					
		By Monika's Capital a/c (G/w)	1,60,000																																					
		By Manisha's Capital A/c(G/w)	80,000																																					
		By P/L Suspense A/c (Share of Profit)	20,000																																					
		By Interest on Capital	4,500																																					
	<u>4,74,500</u>		<u>4,74,500</u>																																					



16 16 16

**Q. Hanif & Jubed.....Realisation Account.**  
**Ans.**

Dr.		Realisation A/c		Cr.	
Particulars	Amt (₹)	Particulars	Amt (₹)		
To Debtors	½ { 3,40,000	By Creditors	1,50,000	½	
To Stock	1,50,000	By Bank A/c			
To furniture	½ { 4,60,000	Stock	65,000	1	
To Machinery	8,20,000	Machinery	74,000		
		Debtors	3,23,000		
To Bank A/c -Creditors	½ { 1,50,000		4,62,000	1	
		By Hanif's Current A/c / Capital A/c (Stock)	67,500		
To Hanif's Current A/c or Capital A/c (Realisation Expenses)	½ { 8,000	By Jubed's Current A/c / Capital A/c (Furniture)	1,35,000	½	
		By loss transferred to Hanif's Current A/c / Capital A/c 7,42,333			
		Jubed's Current A/c / Capital A/c 3,71,167	11,13,500	1 =	
	<u>19,28,000</u>		<u>19,28,000</u>		

½  
1  
1  
½  
1  
=  
6 Marks

18 17 17

**Q. Shikhar & Rohit..... new firm.**  
**Ans.**

Dr.		Revaluation A/c		Cr.	
Particulars	Amt (₹)	Particulars	Amt (₹)		
To Machinery A/c	45,000	By Land and Building	70,000	2	
To profit transferred to:					
Shikhar's capital A/c 17,500					
Rohit's Capital A/c 7,500	25,000				
	<u>70,000</u>		<u>70,000</u>		

  

Dr.		Partner's Capital A/c			Cr.		
	Shikhar (₹)	Rohit (₹)	Kavi (₹)		Shikhar (₹)	Rohit (₹)	Kavi (₹)
To Cash A/c	37,000	23,000	--	By Balance b/d	8,00,000	3,50,000	-
To Balance c/d	9,03,000	3,87,000	4,30,000	By cash A/c	--	--	4,30,000
				By premium for goodwill A/c	17,500	7,500	--
				By general reserve A/c	70,000	30,000	
				By workmen compensation Fund A/c	35,000	15,000	
				By revaluation A/c (profit)	17,500	7,500	
	<u>9,40,000</u>	<u>4,10,000</u>	<u>4,30,000</u>		<u>9,40,000</u>	<u>4,10,000</u>	<u>4,30,000</u>

2  
  
1x3  
=  
3 Marks

**Balance Sheet of Shikhar, Rohit & Kavi  
as at 1<sup>st</sup> April 2013**

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Creditors	1,50,000	Cash in Hand	5,45,000
Workmen Compensation Claim	50,000	Stock	3,50,000
Capital:		Machinery	4,05,000
Shikhar – 9,03,000		Land & Building	4,20,000
Rohit – 3,87,000		Debtors	2,20,000
Kavi – 4,30,000	17,20,000	Less provision <u>20,000</u>	2,00,000
	<b><u>19,20,000</u></b>		<b><u>19,20,000</u></b>

**Working Note:**

New Ratio:

Let the profit of the firm = 1

Kavi's share =  $\frac{1}{4}$

Remaining share =  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Shikhar's Share =  $\frac{3}{4} * \frac{7}{10}$

Rohit's Share =  $\frac{3}{4} * \frac{7}{10} = \frac{21}{40}$

Kavi's Share =  $\frac{1}{4} * \frac{10}{10} = \frac{10}{40}$

New ratio = 21:9:10

Kavi's capital = 4,30,000

Total capital of the firm = 4,30,000 \* 4 = 17,20,000

Shikhar's capital = 17,20,000 \*  $\frac{21}{40}$  = 9,03,000

Rohit's capital = 17,20,000 \*  $\frac{9}{40}$  = 3,87,000

Kavi's Capital = 4,30,000

3

(2+3+2+1)

=

8 Marks

18 17 OR 17

**Q.** L, M & N ..... new firm.

**Ans.**

**Revaluation A/c**

Dr.

Cr.

Particulars	Amt (₹)	Particulars	Amt (₹)
To Building A/c	1,00,000	By Land A/c	3,20,000
To furniture A/c	30,000		
To profit transferred to L's capital A/c	95,000		
M's Capital A/c	47,500		
N's Capital A/c	<u>47,500</u>		
	1,90,000		
	<b><u>3,20,000</u></b>		<b><u>3,20,000</u></b>

2

**Partner's Capital A/c**

Dr.				Cr.			
Particulars	L (₹)	M (₹)	N (₹)	Particulars	L (₹)	M (₹)	N (₹)
To N's Capital A/c	1,00,000	50,000	--	By Balance b/d	6,00,000	4,80,000	4,80,000
To N's loan A/c	--	--	8,37,500	By L's Capital A/c (g/w)	--	--	1,00,000
To M's current A/c	--	1,20,000	--	By M's Capital A/c (g/w)	--	--	50,000
To Balance c/d	10,35,000	5,17,500	--	By General Reserve A/c	2,20,000	1,10,000	1,10,000
				By Workmen Compensation Fund A/c	1,00,000	50,000	50,000
				By revaluation A/c (profit)	95,000	47,500	47,500
				By L's current A/c	1,20,000	--	--
	<u>11,35,000</u>	<u>6,87,000</u>	<u>6,87,000</u>		<u>11,35,000</u>	<u>6,87,000</u>	<u>6,87,000</u>

1x3  
=  
3 Marks

**Balance sheet of L and M  
As at 1<sup>st</sup> April, 2013**

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Capitals:		Land	11,20,000
L           10,35,000		Building	5,00,000
M <u>5,17,500</u>	15,52,000	Furniture	2,10,000
N's Loan A/c	8,37,500	Debtors           4,00,000	
Workmen compensation claim	1,60,000	Less provision <u>20,000</u>	3,80,000
Creditors	2,40,000	Stock	4,40,000
M's current A/c	1,20,000	Cash	1,40,000
		L's current A/c	1,20,000
	<u>29,10,000</u>		<u>29,10,000</u>

3

(2+3+3)  
= 8  
Marks

**Working Notes:** Old ratio = 2:1:1

New Ratio = 2:1

Remaining capital = 9,15,000+6,37,500 = 15,52,500 in 2:1

L's capital = 10,35,000

M's Capital = 5,17,500

**Q.** KY Ltd.....books of KY Ltd.

**OR**

JY Ltd.....books of JY Ltd.

**Ans.**

**NOTE :** Full marks are to be awarded for 'ATTEMPTING' the question. (whether correctly or wrongly) and it is applicable to both the options (Premium or Discount )

8 Marks



**Part B – Financial Statements Analysis**

-	19	-	<p><b>Q.</b> State ..... statement.  <b>Ans.</b> Cash flow refers to inflow and outflow of cash &amp; cash equivalents resulting in increase or decrease in cash.</p>	1 mark																																								
-	20	-	<p><b>Q.</b> Why..... Statement.  <b>Ans.</b> Financing activities are the activities which result in change in capital &amp; borrowings of an organisation so the disclosure is important to estimate claims by lenders.</p>	1 mark																																								
21	21	21	<p><b>Q.</b> State..... analysis?  <b>Ans. (Any 1)</b>                      (i) To measure earning capacity or profitability.                      (ii) To measure solvency.                      (iii) To measure financial strength.                      (iv) To make comparative study.                      (v) To provide useful information to the interested parties .</p>	1 mark																																								
22	22	22	<p><b>Q.</b> Under which ..... Companies Act'1956.  <b>Ans.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No.</th> <th>Items</th> <th>Sub – Heading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Capital reserve</td> <td>Reserve and surplus</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bonds</td> <td>Long term borrowings</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Loans Repayable on demand</td> <td>Short term borrowings</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Vehicles</td> <td>Fixed Assets- Tangible Assets</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Goodwill</td> <td>Fixed Assets-Intangible Assets</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Loose tools</td> <td>Inventories</td> </tr> </tbody> </table>	S.No.	Items	Sub – Heading	1	Capital reserve	Reserve and surplus	2	Bonds	Long term borrowings	3	Loans Repayable on demand	Short term borrowings	4	Vehicles	Fixed Assets- Tangible Assets	5	Goodwill	Fixed Assets-Intangible Assets	6	Loose tools	Inventories	½ x6 = 3 Marks																			
S.No.	Items	Sub – Heading																																										
1	Capital reserve	Reserve and surplus																																										
2	Bonds	Long term borrowings																																										
3	Loans Repayable on demand	Short term borrowings																																										
4	Vehicles	Fixed Assets- Tangible Assets																																										
5	Goodwill	Fixed Assets-Intangible Assets																																										
6	Loose tools	Inventories																																										
-	23	-	<p><b>Q.</b> From the following ..... Services Ltd.  <b>Ans.</b></p> <p align="center"><b>COMPARATIVE STATEMENT OF PROFIT &amp; LOSS</b>  <b>For the years ended 31<sup>st</sup> March'2012 and 2013</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>2011-12 (₹)</th> <th>2012-13 (₹)</th> <th>Absolute Increase / Decrease</th> <th>Percentage Increase / Decrease</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue from Operations</td> <td>11,00,000</td> <td>14,00,000</td> <td>3,00,000</td> <td>27.27%</td> </tr> <tr> <td>Add other income</td> <td>1,40,000</td> <td>2,00,000</td> <td>60,000</td> <td>42.85%</td> </tr> <tr> <td>Total Revenue</td> <td>12,40,000</td> <td>16,00,000</td> <td>3,60,000</td> <td>29.03%</td> </tr> <tr> <td>Less Expenses</td> <td>9,00,000</td> <td>8,00,000</td> <td>(1,00,000)</td> <td>(11.11%)</td> </tr> <tr> <td>Profit before Tax</td> <td>3,40,000</td> <td>8,00,000</td> <td>4,60,000</td> <td>135.2%</td> </tr> <tr> <td>Less Tax @ 40%</td> <td>1,36,000</td> <td>3,20,000</td> <td>1,84,000</td> <td>135.2%</td> </tr> <tr> <td>Profit after tax</td> <td>2,04,000</td> <td>4,80,000</td> <td>2,76,000</td> <td>135.2%</td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	2011-12 (₹)	2012-13 (₹)	Absolute Increase / Decrease	Percentage Increase / Decrease	Revenue from Operations	11,00,000	14,00,000	3,00,000	27.27%	Add other income	1,40,000	2,00,000	60,000	42.85%	Total Revenue	12,40,000	16,00,000	3,60,000	29.03%	Less Expenses	9,00,000	8,00,000	(1,00,000)	(11.11%)	Profit before Tax	3,40,000	8,00,000	4,60,000	135.2%	Less Tax @ 40%	1,36,000	3,20,000	1,84,000	135.2%	Profit after tax	2,04,000	4,80,000	2,76,000	135.2%	<p>1 1 1 1 =</p> <p>1x4 = 4 Marks</p>
Particulars	2011-12 (₹)	2012-13 (₹)	Absolute Increase / Decrease	Percentage Increase / Decrease																																								
Revenue from Operations	11,00,000	14,00,000	3,00,000	27.27%																																								
Add other income	1,40,000	2,00,000	60,000	42.85%																																								
Total Revenue	12,40,000	16,00,000	3,60,000	29.03%																																								
Less Expenses	9,00,000	8,00,000	(1,00,000)	(11.11%)																																								
Profit before Tax	3,40,000	8,00,000	4,60,000	135.2%																																								
Less Tax @ 40%	1,36,000	3,20,000	1,84,000	135.2%																																								
Profit after tax	2,04,000	4,80,000	2,76,000	135.2%																																								
24	24	24	<p><b>Q.</b> The quick.....amount due.</p>																																									

		<p><b>Ans. (a)</b>                  (1) Decrease                  Reason: Liquid assets will decrease with no change in current liabilities</p> <p>(2) No change in the ratio                  Reason: Increase in cash and decrease in debtors with no change in liquid assets.</p> <p>(b)                  Proprietary ratio = Share holders funds / Total assets = ` 1,00,000 / ` 4,50,000 = <b>.22:1 or 22%</b>                  Shareholders funds = Current assets + Non current assets – Long term borrowings – Long term provisions – Current liabilities                  = ` 90,000 + ` 3,60,000 – ` 2,00,000 – ` 1,00,000 – ` 50,000 = ` 1,00,000                  Total Assets = Current Assets+ Non current assets                  = ` 90,000 + ` 3,60,000                  = ` 4,50,000</p>	<p>½ ½ ½ ½ (½x4) = 2 Marks  1 ½ ½ 2 Marks (2+2) = 4 Marks</p>																																																			
25	25	<p>25 <b>Q.</b> Prepare a Cash flow Statement ..... Question.  <b>Ans.</b></p> <p align="center"><b>Cash flow statement</b>  <b>For the year ended 31<sup>st</sup> March 2013 as per AS-3 (Revised)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Details (₹)</th> <th>Amount (₹)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><u>Cash Flows from Operating Activities:</u></td> </tr> <tr> <td>Net Profit before tax &amp; extraordinary items</td> <td>15,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Add:</u> Decrease in trade receivables</td> <td>13,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Decrease in inventories</td> <td>1,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Less:</u> Decrease in trade payables</td> <td>(66,000)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cash used in Operating Activities</td> <td><b>(36,000)</b></td> <td><b>(36,000)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Cash flows from Investing Activities :</u></td> </tr> <tr> <td>Purchase of fixed tangible assets</td> <td>(47,500)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Purchase of non current investments</td> <td>(3,000)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cash used in investing activities</td> <td><b>(50,500)</b></td> <td><b>(50,500)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Cash flows from Financing Activities:</u></td> </tr> <tr> <td>Issue of share capital</td> <td>50,000</td> <td><b>50,000</b></td> </tr> <tr> <td>Cash from financing activities</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Net decrease in cash &amp; cash equivalents</td> <td></td> <td><b>(36,500)</b></td> </tr> <tr> <td><u>Add:</u> Opening balance of cash &amp; cash equivalents</td> <td></td> <td><b>1,17,500</b></td> </tr> <tr> <td>Closing Balance of cash &amp; cash equivalents</td> <td></td> <td><b>81,000</b></td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	Details (₹)	Amount (₹)	<u>Cash Flows from Operating Activities:</u>			Net Profit before tax & extraordinary items	15,000		<u>Add:</u> Decrease in trade receivables	13,500		Decrease in inventories	1,500		<u>Less:</u> Decrease in trade payables	(66,000)		Cash used in Operating Activities	<b>(36,000)</b>	<b>(36,000)</b>	<u>Cash flows from Investing Activities :</u>			Purchase of fixed tangible assets	(47,500)		Purchase of non current investments	(3,000)		Cash used in investing activities	<b>(50,500)</b>	<b>(50,500)</b>	<u>Cash flows from Financing Activities:</u>			Issue of share capital	50,000	<b>50,000</b>	Cash from financing activities			Net decrease in cash & cash equivalents		<b>(36,500)</b>	<u>Add:</u> Opening balance of cash & cash equivalents		<b>1,17,500</b>	Closing Balance of cash & cash equivalents		<b>81,000</b>	<p>2 ½  1 ½ 1 1 1 (2 ½ + 1 ½ + 1) = 6 Marks</p>
Particulars	Details (₹)	Amount (₹)																																																				
<u>Cash Flows from Operating Activities:</u>																																																						
Net Profit before tax & extraordinary items	15,000																																																					
<u>Add:</u> Decrease in trade receivables	13,500																																																					
Decrease in inventories	1,500																																																					
<u>Less:</u> Decrease in trade payables	(66,000)																																																					
Cash used in Operating Activities	<b>(36,000)</b>	<b>(36,000)</b>																																																				
<u>Cash flows from Investing Activities :</u>																																																						
Purchase of fixed tangible assets	(47,500)																																																					
Purchase of non current investments	(3,000)																																																					
Cash used in investing activities	<b>(50,500)</b>	<b>(50,500)</b>																																																				
<u>Cash flows from Financing Activities:</u>																																																						
Issue of share capital	50,000	<b>50,000</b>																																																				
Cash from financing activities																																																						
Net decrease in cash & cash equivalents		<b>(36,500)</b>																																																				
<u>Add:</u> Opening balance of cash & cash equivalents		<b>1,17,500</b>																																																				
Closing Balance of cash & cash equivalents		<b>81,000</b>																																																				

PART C																									
Computerised Accounting																									
20	19	21	<p><b>Q.</b> What..... analysis?  <b>Ans.</b> A process which may entail database designed to identify and elicit needed information from those with the domain of knowledge.</p>	<b>1 Mark</b>																					
21	20	19	<p><b>Q.</b> What..... Accounting System?  <b>Ans.</b> A 'data' or data element is the smallest named unit of data in the information system. These are facts and may consist of number, text etc.  <b>OR</b>                      The raw fact (as input) for any business application is known as data.</p>	<b>1 Mark</b>																					
19	21	20	<p><b>Q.</b> What..... Database?  <b>Ans .</b> A relational database utilises two or more tables containing data arranged in rows and columns.</p>	<b>1 Mark</b>																					
22	22	22	<p><b>Q.</b> Explain..... System.  <b>Ans.</b> Advantages of Computerised Accounting System <b>(Any two)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Timely generation of reports and information in desired format.</li> <li>6. Efficient record keeping.</li> <li>7. Ensures effective control over the system.</li> <li>8. Economy in the processing of accounting data.</li> </ol> <p>Limitations <b>(Any one):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Faster obsolesce of technology necessitates investment in short period of time.</li> <li>6. Data may be lost or corrupt due to power interruptions.</li> <li>7. Data are prone to hacking.</li> </ol> <p>Un-programmed and un-specified reports cannot be generated.</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>1</b></p> <p><b>2+1 = 3 Marks</b></p>																					
23	23	24	<p><b>Q.</b> Differentiate ..... four basis.  <b>Ans : (Any four)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="left">Basis</th> <th align="left">Desktop Database</th> <th align="left">Server Database</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Application</td> <td>Single user</td> <td>Multiple Users</td> </tr> <tr> <td>8. Additional Provision for reliability</td> <td>Not present</td> <td>Present</td> </tr> <tr> <td>9. Cost</td> <td>Less Costly</td> <td>Costly</td> </tr> <tr> <td>10. Flexibility regarding choice of performance front end application</td> <td>Not present</td> <td>Present</td> </tr> <tr> <td>11. Example</td> <td>MS Access</td> <td>ORACLE,SQL</td> </tr> <tr> <td>12. Suitability</td> <td>Small office, home office</td> <td>Large Organisation</td> </tr> </tbody> </table>	Basis	Desktop Database	Server Database	7. Application	Single user	Multiple Users	8. Additional Provision for reliability	Not present	Present	9. Cost	Less Costly	Costly	10. Flexibility regarding choice of performance front end application	Not present	Present	11. Example	MS Access	ORACLE,SQL	12. Suitability	Small office, home office	Large Organisation	<b>(1x4) = 4 Marks</b>
Basis	Desktop Database	Server Database																							
7. Application	Single user	Multiple Users																							
8. Additional Provision for reliability	Not present	Present																							
9. Cost	Less Costly	Costly																							
10. Flexibility regarding choice of performance front end application	Not present	Present																							
11. Example	MS Access	ORACLE,SQL																							
12. Suitability	Small office, home office	Large Organisation																							
23	24	23	<p><b>Q.</b> What..... conditions?  <b>Ans.</b> Data validation is a feature of spreadsheet which imposes a restriction on the type of data to be entered in a cell.  <b>(Any two)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Setting limits with a formula: Only those entries will be allowed which will have true values as per formula.</li> <li>b) Prevention of duplicate entries.</li> <li>c) Setting the range of figures.</li> <li>d) Using or adding spaces before or after the text.</li> <li>e) Preventing entry of dates that fall on holiday or weekends.</li> </ol>	<b>1 x 4 = 4 Marks</b>																					

-	25	=	<b>Q.</b> Calculate..... amounts of : <b>Ans .</b> a) Travelling allowance =IF(B1>25000,0.25*B1,0.2*B1) b) Loan payable = IF(B1>25000,0.2*B1,0.15*B1) c) Net salary =SUM(B1,C1—D1)	<b>2x3 = 6 Marks</b>
---	----	---	--	--------------------------

